

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2022	2023		घट-बढ़	
	जनवरी 14	जनवरी 6	जनवरी 13	समाह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3006165	3225342	3252070	26727	245904
1.1 संचलन में नोट	3006151	3225329	3252059	26730	245908
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	13	10	-3	-4
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	101	1	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना					
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	683105	830148	800904	-29244	117799
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7400	9055	8317	-737	918
2.6 अन्य बैंक	40700	48825	49297	472	8597
2.7 अन्य	1183254	511576	485950	-25626	-697304
3 अन्य देयताएं	1308879	1496017	1515004	18988	206125
कुल देयताएं / आस्तियां	6229647	6121105	6111685	-9420	-117962
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4257951	4135150	4140096	4945	-117855
2 सोना	294839	345658	348887	3228	54048
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1505350	1405197	1410639	5442	-94711
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	-	-	-	-
4.2 राज्य सरकारें	13975	17380	16688	-692	2714
4.3 नाबार्ड	24770	0	0	0	-24770
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	94732	96723	95937	-786	1205
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	24042	102233	80318	-21915	56275
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	11925	16700	17058	357	5133

* डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	जनवरी 13, 2023 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			समाह		मार्च 2022 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4652927	572000	7291	10417	54108	-35309	-54432	-62965
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां #	4112093	505519	5299	9078	17528	-35205	-119114	-65218
1.2 स्वर्ण	348887	42890	3228	1106	26673	339	54048	3120
1.3 विशेष आहरण अधिकार	149382	18364	-1316	147	6330	-527	6891	-856
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	42565	5227	80	86	3577	84	3743	-11

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

13 जनवरी, 2023 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएं (सीआरआर) = ₹792749 करोड़	2022	2023											
	दिसंबर 31	जनवरी 1	जनवरी 2	जनवरी 3	जनवरी 4	जनवरी 5	जनवरी 6	जनवरी 7	जनवरी 8	जनवरी 9	जनवरी 10	जनवरी 11	जनवरी 12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	825882	823169	821490	792782	775362	776048	830148	788792	784653	776911	774774	770327	767415
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	104.2	103.8	103.6	100.0	97.8	97.9	104.7	99.5	99.0	98.0	97.7	97.2	96.8
													101.0

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	दिसंबर 30, 2022 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2021-22	2022-23	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	218425	17158	-9551	27855	-20702	32109
1.2 बैंकों से उधार	50984	-8973	-2997	12667	-4734	13101
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	56548	1880	8030	26786	9644	30675
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	17734124	379745	1128341	1268811	1515105	1492270
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		2.2	7.5	7.7	10.3	9.2
2.1.1 मांग	2201728	169296	205458	128981	445026	135077
2.1.2 मीयादी	15532396	210449	922883	1139830	1070080	1357193
2.2 उधारियां	440744	-21053	25946	166150	13576	170773
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	755481	-857	-23875	114632	-17263	122748
3 रिज़र्व बैंक से उधार	127472	12049	12214	33173	25349	24983
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	940227	27694	177174	170864	250831	129612
4.1 उपलब्ध नकदी	98615	-2991	3435	12689	8592	4433
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	841612	30685	173740	158175	242240	125180
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	190373	4848	12838	26132	7985	34240
5.2 मांग और अन्य सूचना पर प्राप्य राशि	18843	1628	1394	11861	2889	6795
5.3 बैंकों को अग्रिम	45874	-971	11808	10073	8369	17302
5.4 अन्य आस्तियां	62541	-378	3310	25928	2618	32402
6 निवेश	5096044	-31563	145709	367096	127409	487809
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.6	3.3	7.8	2.8	10.6
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	5095190	-31578	145733	367012	127518	487825
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	854	15	-25	85	-110	-16
7 बैंक ऋण*	13304393	149951	734799	1413079	980870	1722306
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.1	6.8	11.9	9.2	14.9
7 क.1 खाद्य ऋण	53972	-602	27425	-1038	-3865	-34707
7 क.2 खाद्योत्तर ऋण	13250421	150552	707374	1414117	984735	1757014
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	13065864	141715	727714	1414527	937106	1703880
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	35310	1289	3628	-744	10866	1151
7 ख.3 भुनाए गए	156955	4115	7144	2744	30758	21929
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	18728	3078	53	-429	1863	-1718
7 ख.5 भुनाए गए	27535	-246	-3739	-3019	278	-2936

*3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक बैंक ऋण वृद्धि और सभी पखवाड़ों के संबंधित बदलाव को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के संबंध में समायोजित किया जाता है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/सामाज सप्ताह	2022	2022				2023
	जनवरी 14	दिसंबर 16	दिसंबर 23	दिसंबर 30	जनवरी 6	जनवरी 13
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.82	5.26	..	5.30	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	71.93	75.80	..	75.02	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	62.95	142.07	..	111.37	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	28.94	29.55	..	28.74	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	18.78	44.84	..	28.93	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	4.00	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ) दर *	..	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	4.25	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
बैंक दर	4.25	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
आधार दर	7.25/8.80	8.10/9.40	8.10/9.40	8.10/9.40	8.60/9.40	8.65/9.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	6.45/7.00	7.30/8.15	7.30/8.15	7.30/8.15	7.30/8.40	7.30/8.40
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	4.90/5.60	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	3.34	6.18	6.48	6.38	6.08	6.09
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.57	6.40	6.39	6.31	6.36	6.39
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.03	6.75	6.76	6.74	6.78	6.78
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.38	6.87	6.90	6.89	6.92	6.90
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.57	7.28	7.33	7.34	7.38	7.44
एफबीआईएल® संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	74.12	82.82	82.87	82.79	82.63	81.43
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.07	88.26	87.90	88.15	86.92	88.26
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.80	2.03	2.32	2.17	2.03	1.88
3-माह	4.53	2.13	2.32	2.17	2.20	2.39
6-माह	4.80	2.23	2.44	2.22	2.18	2.39

* प्रेस विज्ञापि संख्या 2022 2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका / डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2022		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2021-22		2022-23		2021		2022	
	मार्च 31	दिसंबर 30	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	20493729	21859358	374839	1.7	1269459	6.7	1365629	6.7	1813627	9.9	1745322	8.7
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3035689	3122019	-5676	-0.2	129287	4.7	86330	2.8	206346	7.7	240904	8.4
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2212992	2341912	168629	7.8	210932	10.6	128921	5.8	461303	26.4	135860	6.2
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	15186605	16332494	213099	1.3	925545	6.6	1145889	7.5	1137342	8.2	1356671	9.1
1.4 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	58444	62932	-1213	-1.9	3695	7.8	4488	7.7	8636	20.4	11887	23.3
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	6477629	6565472	40341	0.6	250342	4.3	87843	1.4	274104	4.7	464756	7.6
2.1.1 रिजर्व बैंक	1450596	1170253	72296	6.6	94649		-280343		92282		-24081	
2.1.2 अन्य बैंक	5027033	5395219	-31956	-0.6	155693	3.3	368186	7.3	181822	3.8	488838	10.0
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	12616520	14044417	155547	1.1	622475	5.3	1427897	11.3	1031393	9.2	1753475	14.3
2.2.1 रिजर्व बैंक	16571	19852	5570		-6615		3282		-9401		17758	
2.2.2 अन्य बैंक	12599950	14024565	149977	1.1	629090	5.4	1424615	11.3	1040795	9.3	1735717	14.1
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4854063	4746428	-15133	-0.3	270662	5.9	-107635	-2.2	250005	5.4	-103080	-2.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	28013	29384	0	0	752	2.8	1371	4.9	983	3.7	1720	6.2
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	3482496	3526343	-194084	-5.2	-125228	-3.8	43847	1.3	-257141	-7.5	371549	11.8
2.5.1 रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1308500	1494789	-16484	-1.1	-49618	-3.7	186288	14.2	-150387	-10.3	187747	14.4

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2022	2023	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2021-22		2022-23		2022		2023	
	मार्च 31	जनवरी 13	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4068887	4202505	-2928	-0.1	214676	6.0	133618	3.3	443288	13.1	387847	10.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3133716	3281660	26730	0.8	180052	6.3	147943	4.7	223385	7.9	247844	8.2
1.2 रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	876726	858519	-29509	-3.3	32338	4.6	-18207	-2.1	212857	41.1	127313	17.4
1.3 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	58444	62326	-149	-0.2	2286	4.8	3882	6.6	7045	16.5	12690	25.6
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1450596	1253932	16611		61368		-196665		109388		92878	
2.1.1 रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1448972	1237286	17303		50776		-211687		105369		90164	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-543702	-67299	-9364		-240267		476403		-98572		542325	
2.2.1 बैंकों पर रिजर्व बैंक के निवल दावे	-560272	-71023	5100		-236698		489249		-94371		543741	
2.3 रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4489285	8616	0.2	338073	8.1	46805	1.1	286846	6.7	-48188	-1.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	28013	29600			752	2.8	1588	5.7	983	3.7	1936	7.0
2.5 रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	1308500	1503013	18791	1.3	-54750	-4.0	194513	14.9	-144642	-10.0	201104	15.4

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
जनवरी 9, 2023	—	—	—	—	423	146067	-4000	—	—	-149644
जनवरी 10, 2023	—	—	—	—	780	148168	-5400	—	—	-152788
जनवरी 11, 2023	—	—	—	—	378	161316	4	—	—	-160934
जनवरी 12, 2023	—	—	—	—	274	170804	-5004	—	—	-175534
जनवरी 13, 2023	—	—	—	52290	1685	114671	-289	400	—	-165965
जनवरी 14, 2023	—	—	—	—	129	3612	—	—	—	-3483
जनवरी 15, 2023	—	—	—	—	29	3671	—	—	—	-3642

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा

जनवरी 20, 2023

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2021		2022		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	नवंबर	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च - अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	166.7	166.2	176.5	175.7	- 0.5	4.8	5.7
1.1 ग्रामीण	167.6	167.0	177.8	177.1	- 0.4	5.0	6.0
1.2 शहरी	165.6	165.2	175.0	174.1	- 0.5	4.6	5.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	125.7	125.4	132.5	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	143.7	143.3	152.1	150.4	- 1.1	1.0	5.0
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	168.4	168.4	177.7	172.4	- 3.0	0.9	2.4
3.2 ईंधन और बिजली	136.0	133.8	159.6	158.0	- 1.0	9.8	18.1
3.3 विनिर्मित उत्पाद	136.6	136.5	141.5	141.1	- 0.3	- 0.8	3.4

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 30, 2022	293983	35846	6.65 - 7.88
जनवरी 13, 2023	292289	28381	6.74 - 7.85

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 31, 2022	359673	54576	6.58 - 13.75
जनवरी 15, 2023	381155	45027	6.37 - 12.75

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	जनवरी 14, 2022	जनवरी 6, 2023	जनवरी 13, 2023
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	15648	14915	17562
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	4516	4710	820
3 त्रिपक्षीय रेपो	811201	650009	613936
4 बाजार रेपो	428782	400496	435193
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	208	275	256

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

जनवरी 13, 2023 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	12711	18281	39840	181214
182-दिवसीय	65360	43825	11868	200595
364-दिवसीय	99775	185854	43507	459886
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2022-23 (जनवरी 13, 2023 तक)	2021-22 (जनवरी 14, 2022 तक)	2021-22	2022-23 (जनवरी 13, 2023 तक)	2021-22 (जनवरी 14, 2022 तक)	2021-22
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1205000	1021857	1127382	892261	807300	863103
2. राज्य सरकारें	476954	500980	701626	315540	362816	492483

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका (www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है।समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री जी. वि. नथनएल, निदेशक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।